


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

अधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385] [नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 14, 1973/कार्तिक 23, 1895

No. 385] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 14, 1973/KARTIKA 23, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 14th November 1973

S.O. 695(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 412 of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), read with sub-rule (2) of rule 7 of the Control of Shipping (Rates) Rules, 1949, continued in force by clause (a) of sub-section (3) of section 461 of the said Act, the Central Government hereby fixes, with effect from the 14th day of November, 1973, the passenger fares for all classes of accommodation at thirty per cent above the fares fixed by the Notification of the Government of India in the Ministry of Transport and Shipping, Transport Wing, No. S.O. 3743, dated the 10th September, 1969, so, however, that in converting the fares specified in the said notification into the increased fares, such increased fares will be rounded off to the next higher 10 paise.

[No. 40-MD(16)/73]

G. C. BAVEJA, Jt. Secy,

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(परिवहन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 1973

सा० आ० 695 (अ).—नौवहन नियंत्रण (दरें) नियम, 1949 के नियम 7 के उपनियम (2) के साथ पठित व्यापार नौवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 412 की उपधारा (1) जो उक्त अधिनियम की धारा 461 की उपधारा (3) के खण्ड (क) द्वारा सत्त लागू है, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा नवम्बर, 1973 के 14वें दिन से जहाज में जगह की सभी श्रेणियों के लिए उस भाड़े में 30 प्रतिशत अधिक यात्री भाड़ा नियत करती है जो कि भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (परिवहन पक्ष) के दिनांक 10 सितम्बर, 1969 की अधिसूचना सं० सा० आ० 3743 द्वारा नियत किया गया था, परन्तु उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भाड़े को बढ़े हुए भाड़े में बदलने समय, भाड़ा वृद्धि अगले 10 पैसे की अधिक मात्रा तक नियत किया जाये।

[सं० 40-एम० डी० (16)/73]

जी० सी० बवेजा, संयुक्त सचिव ।